



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अप्रैल 11, 2025

संख्या 15

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अप्रैल 5	मार्च 28	अप्रैल 4	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3498254	3683848	3703365	19517	205111
1.1 संचलन में नोट	3498239	3683836	3703352	19516	205114
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	16	11	13	1	-3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	1	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	932312	943060	930337	-12724	-1975
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	9615	7776	7526	-250	-2089
2.6 अन्य बैंक	53764	52926	52338	-588	-1426
2.7 अन्य	493258	705381	530972	-174409	37714
3 अन्य देयताएं	1797575	2150508	2213279	62771	415703
कुल देयताएं / आस्तियां	6784921	7543641	7437960	-105682	653039
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4796490	4861720	4925980	64260	129490
2 सोना	454381	664889	676510	11622	222129
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1361444	1558566	1587489	28923	226045
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	17380	26284	38299	12016	20919
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10517	251984	60031	-191953	49514
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	137475	148194	134183	-14011	-3292
5 खरीद और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	5171	29942	13403	-16538	8233

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अप्रैल 04, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5764903	676268	77807	10872	52762	7942	363327	27706
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4893864	574088	64769	9074	43030	6530	136933	2922
1.2 स्वर्ण	676510	79360	11622	1567	8348	1183	222129	24802
1.3 विशेष आहरण अधिकार	156526	18362	1182	186	1237	193	5201	192
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	38003	4459	235	46	148	36	-936	-210

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अप्रैल 04, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 928983 करोड़	2025													
	मार्च 22	मार्च 23	मार्च 24	मार्च 25	मार्च 26	मार्च 27	मार्च 28	मार्च 29	मार्च 30	मार्च 31	अप्रैल 1	अप्रैल 2	अप्रैल 3	अप्रैल 4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	944151	943143	948632	949616	949693	941196	949441	921748	920935	934358	930948	906024	885498	936934
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	101.5	102.1	102.2	102.2	101.3	102.2	99.2	99.1	100.6	100.2	97.5	95.3	100.9

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	मार्च 21, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	309413	25091	68352	14943	68352	14943
1.2 बैंकों से उधार	112450	-925	115230	-69978	115230	-69978
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	29907	-8937	13928	-42545	13928	-42545
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22574982 (22515535)	64864	2431313 (2323070)	2099755	2431313 (2323070)	2099755 (2148551)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	13.5 (12.9)	10.3	13.5 (12.9)	10.3 (10.5)
2.1.1 मांग	2692659	151182	263423	248806	263423	248806
2.1.2 मीयादी	19882323	-86318	2167890	1850950	2167890	1850950
2.2 उधारियां	915248	-23860	332613	137305	332613	137305
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1062892	8166	147777	125464	147777	125464
3 रिज़र्व बैंक से उधार	311466	128030	57631	88750	57631	88750
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	964289	-6107	120746	-56627	120746	-56627
4.1 उपलब्ध नकदी	81874	-1254	-829	-7559	-829	-7559
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	882415	-4852	121575	-49068	121575	-49068
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	215776	9070	4905	17449	4905	17449
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	25838	-2348	-12509	13483	-12509	13483
5.3 बैंकों को अग्रिम	39504	596	7184	-8865	7184	-8865
5.4 अन्य आस्तियां	67362	4585	48294	-48061	48294	-48061
6 निवेश	6697928 (6650167)	-39392	691410 (599855)	591370	691410 (599855)	591370 (635165)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.6	12.8 (11.1)	9.7	12.8 (11.1)	9.7 (10.6)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6697298	-39528	691288	591689	691288	591689
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	630	136	122	-319	122	-319
7 बैंक ऋण	18243936 (17822569)	118523	2756929 (2226242)	1811772	2756929 (2226242)	1811772 (1921091)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	20.2 (16.3)	11.0	20.2 (16.3)	11.0 (12.1)
7 क.1 खाद्य ऋण	36531	-6021	3175	13450	3175	13450
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18207404	124544	2753753	1798321	2753753	1798321
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17909815	113081	2709397	1775512	2709397	1775512
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	74963	1022	21032	14496	21032	14496
7 ख.3 भुनाए गए	221059	4344	34447	23701	34447	23701
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15122	49	-3133	-1290	-3133	-1290
7 ख.5 भुनाए गए	22977	27	-4815	-648	-4815	-648

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	अप्रैल 05	मार्च 07	मार्च 14	मार्च 21	मार्च 28	अप्रैल 04
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.89	4.32	..	4.28	..	..
	(4.86)	(4.31)	..	(4.27)	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	76.92	78.84	..	79.16	..	..
	(79.02)	(80.52)	..	(80.81)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	31.93	86.30	..	89.41	..	..
	(30.67)	(83.21)	..	(86.28)	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.05	29.79	..	29.54	..	..
	(29.31)	(29.93)	..	(29.67)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	10.13	32.25	..	29.56	..	..
	(9.41)	(31.00)	..	(28.16)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
बैंक दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत)	6.45	6.25	6.29	6.34	6.35	6.09
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.88	6.49	6.49	6.51	6.52	6.30
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.02	6.61	6.61	6.61	6.52	6.29
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.04	6.57	6.56	6.54	6.47	6.30
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.10	6.74	6.72	6.65	6.62	6.53
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.41	87.06	87.08	86.22	85.58	85.23
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.31	94.20	94.75	93.35	92.32	94.34
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.13	2.79	2.97	4.46	3.12	3.03
3-माह	1.21	2.37	2.41	2.80	2.56	2.54
6-माह	1.35	2.15	2.17	2.36	2.28	2.39

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	मार्च 21	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	27208735 (27268182)	101479 (100334)	0.4 (0.4)	2486756	11.1	2377117 (2328321)	9.6 (9.3)	2497290	11.2	2378219 (2329423)	9.6 (9.3)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3620844	31357	0.9	142452	4.3	210569	6.2	140555	4.3	201956	5.9
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2834633	151374	5.6	266291	11.5	247744	9.6	266291	11.5	247744	9.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20642833 (20702279)	-82893 (-84039)	-0.4 (-0.4)	2070952	12.4	1902915 (1854119)	10.2 (9.8)	2070952	12.4	1902915 (1854119)	10.2 (9.8)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	110426	1642	1.5	7061	9.1	15889	16.8	19492	29.8	25603	30.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	8135829 (8183590)	-131525 (-134445)	-1.6 (-1.6)	147664	2.1	623814 (580019)	8.3 (7.6)	397139	5.7	822632 (778837)	11.2 (10.5)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1193213	1180870	-93680		-456731		-12343		-207257		186475	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6954959 (7002720)	-37845 (-40765)	-0.5 (-0.6)	604396	10.6	636157 (592362)	10.1 (9.2)	604396	10.6	636157 (592362)	10.1 (9.2)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (1702832)	18644302 (19065669)	135607 (130244)	0.7 (0.7)	2239974	15.5	1972157 (1862838)	11.8 (10.8)	2246127	15.6	1974692 (1865372)	11.8 (10.8)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	14406	35823	8879		-14678		21417		-8525		23952	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	18608479 (19029846)	126728 (121365)	0.7 (0.6)	2254652	15.7	1950740 (1841421)	11.7 (10.7)	2254652	15.7	1950740 (1841421)	11.7 (10.7)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567504	5862902	-21555	-0.4	621017	12.6	295399	5.3	601693	12.2	329860	6.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	36306	0	0	2912	9.6	2874	8.6	3191	10.6	3108	9.4
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	4953478 (5467477)	5470604 (5880285)	-118953 (-126090)	-2.1 (-2.1)	524812	12.5	517126 (412808)	10.4 (7.6)	750861	18.9	752073 (647755)	15.9 (12.4)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1790134	2159088	-19177	-0.9	187108	11.8	368964	20.6	162314	10.1	384165	21.6

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	अप्रैल 04	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836010	4833066	-2944	-0.1	-17665	-0.4	-2944	-0.1	260557	6.0	219285	4.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720142	3739658	19516	0.5	20209	0.6	19516	0.5	114829	3.4	207988	5.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	990201	-13562	-1.4	-29758	-2.9	-13562	-1.4	130720	15.1	-5490	-0.6
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	103207	-8898	-7.9	-8116	-8.6	-8898	-7.9	15008	21.0	16787	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1577390	188987		80338		188987		-273259		303840	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1539133	176971		69558		176971		-279133		282920	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-177420	-188838		-99613		-188838		70632		-31660	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-198958	-171909		-96631		-171909		79599		-41774	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5602194	76122	1.4	9408	0.2	76122	1.4	627903	13.6	351704	6.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36306	36306			0	0.0	0	0.0	3146	10.4	2874	8.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2126189	2205404	79215	3.7	7798	0.4	79215	3.7	167865	10.3	407473	22.7

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4				8	9	
मार्च 31, 2025	-	-	-	-	8244	385176	-	-	-	-376932
अप्रैल 01, 2025	-	-	-	-	2804	357282	-	-	-	-354478
अप्रैल 02, 2025	-	-	9170	-	176	393917	-664	-	-	-385235
अप्रैल 03, 2025	-	-	6012	-	1494	413054	-2052	-	-	-407600
अप्रैल 04, 2025	-	-	12419	-	2167	259087	600	-	20000	-223901
अप्रैल 05, 2025	-	-	-	-	3959	208842	-	-	-	-204883
अप्रैल 06, 2025	-	-	-	-	3834	181582	-	-	-	-177748

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

अप्रैल 11, 2025

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.5	185.8	193.4	192.5	-0.5	3.6	3.6
1.1 ग्रामीण	187.3	187.4	195.9	194.5	-0.7	3.6	3.8
1.2 शहरी	183.5	184.0	190.6	190.1	-0.3	3.5	3.3
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.9	139.2	143.2	142.8	-0.3	2.8	2.6
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.2	151.2	154.7	154.8	0.1	2.2	2.4
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	181.4	181.5	189.9	186.6	-1.7	1.9	2.8
3.2 ईंधन और बिजली	154.9	154.9	150.6	153.8	2.1	1.1	-0.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	139.7	139.8	143.2	143.8	0.4	2.6	2.9

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 21, 2025	532972	117053	6.98 - 8.05
अप्रैल 04, 2025	522897	32046	6.45 - 8.05

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 15, 2025	457051	107624	6.67 - 11.78
मार्च 31, 2025	442893	77134	7.00 - 14.46

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अप्रैल 05, 2024	मार्च 28, 2025	अप्रैल 04, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	15444	27595	17637
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	7511	6082	9107
3 त्रिपक्षीय रेपो	602875	818746	653565
4 बाजार रेपो	619031	671533	564475
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	8085	6386	5897

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अप्रैल 04, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	17184	24563	40918	205418
182-दिवसीय	40572	64068	10340	220640
364-दिवसीय	63863	90745	37311	356311
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अप्रैल 04, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 05, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अप्रैल 04, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 05, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	0	0	1400697	0	0	1039275
2. राज्य सरकारें	11800	16100	1073310	11800	16100	753345

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (<https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://data.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

शरथी जी. वि. नरकर, निदेशक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शाहीद भगतसिंह मार्ग, फोटथ, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं पर्यवेक्षित।